



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 747]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 20, 2002/श्रावण 29, 1924

No. 747]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 20, 2002/SRAVANA 29, 1924

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2002

का.आ. 891(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग प्रखंड और स्थायी पुल लोक वित्तपोषित परियोजनाओं के उपयोग के लिए फीस) नियम, 1977 के नियम 3 और नियम 9 के साथ पठित, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचित करती है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 17 पर कालीकट बाइपास फेज I के चेनेज 23800-24100 पर चेलियार नदी के आरपार अरापुझा पुल के उपयोग के लिए यांत्रिक यानों पर नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर फीस उद्ग्रहीत और संदत्त की जाएगी और मुख्य इंजीनियर (राष्ट्रीय राजमार्ग), केरल लोक निर्माण विभाग, तिरुअनंतपुरम, केरल या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर फीस संगृहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. अधिसूचना, इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

अनुसूची

(पुल के उपयोगकर्ताओं से वसूल की जाने वाली फीस की दरें)

क्रम सं०	यानों की विशिष्टियां	प्रति ट्रिप प्रभारित की जाने वाली फीस की दरें (रुपयों में)
1.	मोटर साइकिल, स्कूटर या यांत्रिक रूप से चालित कोई अन्य दो पहियों वाले यान	कुछ नहीं

1.	2.	3.
2.	मोटर कार, टैक्सी, जीप, आटो रिक्शा, लिपहिया स्कूटर, पिक अप वैन, स्टेशन वेगन, टैम्पो या ट्रेलर सहित या रहित अन्य स्वचालित हल्के यान	5.00 रु.
3.	हल्के वाणिज्यिक यान	10.00
4.	बस, ट्रक और अन्य भारी यान जिससे अंतर्गत सामान या यात्रियों से भरे या खाली ट्रक ट्रेलर संयोजन भी हैं और अन्य यांत्रिक रूप से चालित यान	15.00

ये दरें प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात भारत सरकार द्वारा आवधिक रूप से पुनर्विलोकित की जाएंगी ।

टिप्पणी. जब उसी यान को एक दिन में एक से अधिक बार पुल पार करना हो तो उपयोगकर्ता को यह विकल्प होगा कि वह पहली बार ही पुल पार करते समय ऊपर विनिर्दिष्ट दरों का डेढ़ गुणा संदाय कर दे या यदि यान को पुल पूर्ण मास या उससे भी अधिक लंबी अवधि के लिए निरंतर और बार-बार पार करना पड़ता है तो यान का स्वामी, तीस एकल दरों के बराबर प्रभारों का संदाय करके मासिक पास प्राप्त कर सकता है ।

2. निम्नलिखित प्रकार के यानों पर इस अधिसूचना के अधीन कोई फीस संदेय या संग्रहीत नहीं की जाएगी, अर्थात् :-

- (i) रक्षा यान,
- (ii) अति महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रतीक वाले यान (जैसा पैरा 2(ix) में दिया गया है),
- (iii) पुलिस यान,
- (iv) अग्नि शमन यान,
- (v) सरकारी एम्बुलेंस,
- (vi) अन्त्येष्टि वैन
- (vii) ड्यूटी पर डाक व तार विभाग के यान,
- (viii) ड्यूटी पर केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के यान, और
- (ix) निम्नलिखित से संबंधित यान, अर्थात्:-
 - (क) भारत का राष्ट्रपति
 - (ख) भारत का उप राष्ट्रपति
 - (ग) राज्यों के राज्यपाल
 - (घ) संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल
 - (ङ) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति/न्यायमूर्ति

- (च) लोक सभा अध्यक्ष/राज्य सभा का उप सभापति
- (छ) केंद्रीय और राज्य मंत्री
- (ज) लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधान मंडलों में विपक्ष के ऐसे नेता जिनकी प्रास्थिति कैबिनेट मंत्री की हो,
- (झ) संसद सदस्य
- (ञ) सी डी (राजनयिक कार) प्रतीक वाली कारों का उपयोग कर रहे भारत में रह रहे विदेशी राजनयिक
- (ट) राज्य विधान - मंडलों के अध्यक्ष
- (ठ) राज्य विधान सभाओं/परिषदों के सदस्य उनके अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पहचान पत्र दिखाने पर) ; और
- (ड) भारत के राजकीय दौरे पर उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति

3. ऊपर उल्लिखित दरें सहज दृश्य रूप से पुल के आसपास सहजदृश्य स्थानों पर सन्निहित किसी बोर्ड पर अंग्रेजी, हिंदी दोनों और जिस क्षेत्र में स्थायी पुल स्थित है उस क्षेत्र की प्रादेशिक भाषा में सुपाठ्य रूप में लिखित या मुद्रित रूप में, संप्रदर्शित की जाएंगी। यांत्रिक यानों का प्रत्येक चालक, स्वामी या भारसाधक व्यक्ति, स्थायी पुल पार करने से पूर्व या इसे पार करने के पश्चात् पार-अवरोधक (क्रास बार) पर अपना यान रोकेगा और फीस संग्रहण बूथ पर यानों की बाबत उद्ग्रहणीय फीस का संदाय करेगा। मुख्य इंजीनियर (राष्ट्रीय राजमार्ग) केरल, लोक निर्माण विभाग, तिरुवनन्तपुरम, केरल द्वारा पुल पार करने वाले किसी यांत्रिक यान की बाबत फीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत व्यक्ति बदले में राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग प्रखंड और स्थायी पुल लोक वित्त पोषित परियोजनाओं के उपयोग के लिए फीस) नियम, 1977 के संलग्न प्ररूप "क" में एक रसीद दो प्रतियों में तैयार करेगा और रसीद की एक प्रति यांत्रिक यान के चालक या स्वामी या भारसाधक व्यक्ति को देगा।

[फा. सं. आर डब्ल्यू/एन एच-12037/33/2002/के एल/पी-7]

एन. के. सिन्हा, महानिदेशक (सड़क विकास) और विशेष सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th August, 2002

S.O. 891(E).—In exercise of powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rules 3 and 9 of the National Highways (Fees for the Use of National Highways Section and Permanent Bridge – Public Funded Projects) Rules, 1997, the Central Government hereby notifies that there shall be levied and paid fees on mechanical vehicles for the use of permanent Arapuzha Bridge across river Cheliyar at Ch.23800-24100 in Calicut Bypass Phase-I on National Highway No.17 at the rates specified in the Schedule given below and hereby

authorised the Chief Engineer, (National Highways), Kerala PWD, Thiruvananthapuram, Kerala or his authorised representative to collect and retain fees at the rates specified in the said Schedule.

2. The Notification shall come into force on the date of its publication.

SCHEDULE

(Rates of toll fee to be recovered from the users of the bridge)

Sl. No.	Particulars of Vehicles	Rates of fee to be charged per trip (in Rupees)
1.	Motor cycle, Scooter or any other two wheeled mechanically propelled vehicle.	NIL
2.	Motor Car, Taxi, Jeep, Auto rickshaw, Three Wheeler Scooter, Pick up Van, Station - wagon, Tempo or other auto-driven light vehicles with or without trailer.	5.00
3.	Light Commercial vehicles	10.00
4.	Bus, truck and other heavy vehicles including truck trailer combination laden with goods or passengers or unladen and other mechanically propelled vehicles.	15.00

The rates shall be reviewed periodically by the Government of India after every five years.

NOTE:

1. When the same vehicle has to cross the bridge more than once in a day, the user shall have the option to pay one and a half times the rates specified above while crossing the bridge in the first trip itself, or if the vehicle has to cross the bridge continuously and quite frequently for the entire month or even beyond that, for much longer period, the vehicle owner can have a monthly pass on the payment of charges equal to thirty single rates.

2. No fee shall be payable or collected under this notification on the following types of vehicles, namely:-

- (i) Defence vehicles;
- (ii) Vehicles with VIP symbols [as given at para 2(ix)];
- (iii) Police vehicles;
- (iv) Fire Fighting vehicles;
- (v) Government Ambulances;
- (vi) Funeral Vans;
- (vii) Post and Telegraph Department Vehicles on duty;

- (viii) Central and State Government Vehicles on duty; and
- (ix) The vehicles belonging to the, namely;-
 - a) President of India;
 - b) Vice President of India;
 - c) Governors of States;
 - d) Lieutenant Governors of Union Territories;
 - e) Chief Justice of India/Justices;
 - f) Speaker of Lok Sabha/ Vice-Chairman of Rajya Sabha ;
 - g) Central and State Ministers;
 - h) Leaders of Opposition in Lok Sabha, Rajya Sabha and State Legislatures having the status of a Cabinet Ministers;
 - i) Members of Parliament; --
 - j) Foreign Diplomats stationed in India using cars with "CD" (Car Diplomatic) symbols;
 - k) Speakers or Chairpersons of State legislatures;
 - l) Members of State Legislative Assemblies/Councils within their respective Constituencies (on showing the identity cards); and
 - m) Foreign Dignitaries on State visit to India.

3. The above mentioned rates shall be conspicuously displayed on a Board erected at conspicuous places in the vicinity of the bridge, both legibly written or printed in English, Hindi and the regional language of the area in which the permanent bridge is situated. Every driver, owner or person in-charge of the mechanical vehicles shall, before crossing the permanent bridge or after having crossed it, stop his vehicle at the cross bar and pay the fee leviable in respect of the vehicles at the fee collection booth. The person authorised by the Chief Engineer, (National Highways), Kerala Public Works Department, Thiruvananthapuram, Kerala to collect fee in respect of any mechanical vehicle crossing the bridge shall in return, prepare a receipt in duplicate in form 'A' appended to the National Highways (Fees for the use of National Highways, Section and Permanent Bridge-Public funded Project) Rules, 1997 and hand over one copy of the said receipt to the driver or owner or person in charge of the mechanical vehicle.

[F. No RW/NH-12037/33/2002-KL(P-7)]

N K SINHA, Director General (Road Development) & Spl. Secy

26/6/02 2

